

November 12, 2024

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block-G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051 NSE Symbol: CSLFINANCE	BSE Limited Corporate Relationship Department Phiroze, Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001 BSE Scrip Code: 530067
---	---

Dear Sir / Ma'am,

Sub: Compliance under Regulation 30 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") - Newspaper Publication.

Pursuant to above mentioned regulations, please find enclosed herewith the copy of Newspaper Cuttings of the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2024, as approved by the Board of Directors in their Meeting held on November 09, 2024, and published in Business Standard Newspaper (English & Hindi edition) on November 11,2024

This is for your kind information and record.

Thanking you,

Yours Faithfully,
For **CSL Finance Limited**

PREETI Digitally signed
by PREETI
GUPTA
GUPTA Date: 2024.11.12
11:33:35 +05'30'

Preeti Gupta
(Company Secretary & Compliance Officer)**Encl: a/a**

New biz premium of life insurers rises 13% in Oct

Reaches ₹30,347 crore despite a significant drop in number of policies sold

AATHIRA VARIER
Mumbai, 10 November

Life insurance companies reported 13.16 per cent year-on-year (Y-o-Y) growth in new business premium (NBP), totting up ₹30,347 crore in October, even as the number of policies sold saw a sharp decline. The growth was largely driven by strong performance from private sector life insurers.

According to the data from the Life Insurance Council, state-owned Life Insurance Corporation (LIC) of India saw a 9.48 per cent Y-o-Y increase in premiums, reaching ₹17,131 crore, while private insurers reported an 18 per cent Y-o-Y rise in NBP to ₹13,216.51 crore.

As of October 1, revised surrender value norms came into effect, requiring life insurers to pay an enhanced special surrender value to policyholders after the first policy year, provided the customer has paid one full year's premium. Previously, such payments were not made to customers surrendering their policies in the first year.

While insurers had requested an extension from the insurance regulator to implement the new norms, no extension was granted.



ILLUSTRATION: AJAY MOHANTY

GOING STRONG

■ Apr-Oct '24 ■ Oct '24

Life insurance companies	₹ crore	Growth Y-o-Y (%)
Total new business premium	219,561.64 30,347.60	18.56 13.16
LIC	132,680.98 17,131.09	22.52 9.48
Private insurers	86,880.67 13,216.51	12.97 18.30

Source: Life Insurance Council

Despite this, most companies managed to implement the new regulations for about 80 per cent or more of their products. Analysts believe that growth in term insurance and unit-linked insurance plans likely supported the rise in premiums, despite the new surrender value norms coming into effect in October 2024.

According to a Nuvama report, growth in October 2024 was affected by the implementation of the new surrender value regulation, though it remained stable. "In the coming months, growth may fluctuate as the industry finds its balance," the report said.

Data reveals that for LIC, the individual premium seg-

ment saw a 9.4 per cent Y-o-Y drop, adding up to ₹3,712.62 crore, while group premiums increased by 15.5 per cent Y-o-Y to ₹13,267.93 crore. Group yearly premium collections surged by 140.75 per cent to ₹150.54 crore.

Meanwhile, SBI Life Insurance, the largest private sector life insurer, saw a slight 3.8 per cent Y-o-Y decline in NBP to ₹2,648.38 crore, while HDFC Life recorded a 28 per cent Y-o-Y growth, reaching ₹2,799 crore.

Other major insurers, including ICICI Prudential Life, Bajaj Allianz Life Insurance, and Max Life Insurance, posted Y-o-Y growth of 25.29 per cent, 21.46 per cent, and 15.3 per cent, respectively.

During the April-October period, the life insurance industry's NBP grew 18.56 per cent Y-o-Y to ₹2.19 trillion. LIC's premiums grew by nearly 22.5 per cent Y-o-Y to ₹1.32 trillion, while private sector insurers saw a 12.9 per cent Y-o-Y increase in premiums, totalling ₹86,880 crore.

Weekend Update

Trudeau admits to Khalistan supporters' presence in Canada

Canadian Prime Minister Justin Trudeau has acknowledged the presence of Khalistan supporters in Canada but said they do not represent the Sikh community as a whole. His comments came during Diwali celebrations at Ottawa's Parliament Hill recently amid an ongoing diplomatic row with India over the killing of Khalistan extremist Hardeep Singh Nijjar. "There are many supporters of Khalistan in Canada, but they do not represent the Sikh community as a whole. Similarly, there are supporters of Prime Minister Narendra Modi's government in Canada, but they do not represent all Hindu Canadians," Trudeau said.

FM says patriarchy did not stop Indira Gandhi from becoming PM

If patriarchy stopped women from achieving what they want in India, how come Indira Gandhi made it as Prime Minister, asked Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. She met the students of CMS Business School in Bengaluru on Saturday and discussed various measures undertaken by the Centre to support innovation as well as the government schemes available for young people, including the 1 crore internships for the "unemployable youth" in the age group of 21 to 24 years old. Replying to a question about women empowerment, Sitharaman insisted that patriarchy is a concept invented by the Left.

REC looks to raise ₹5K cr more in FY25

ANJALI KUMARI
Mumbai, 10 November



State-owned REC Ltd is looking to raise an additional ₹5,000 crore this

financial year (FY25) through deep discount zero-coupon bonds, according to sources familiar with the development.

The infrastructure-focused lender had previously raised ₹5,000 crore through CBDT-notified zero-coupon bonds on September 30 this year, offering an effective yield of 6.25 per cent per annum. The issue saw an overwhelming demand, with the bonds being oversubscribed by nearly seven times the issue size of ₹5,000 crore.

The issuance had a base issue size of ₹1,000 crore, with a green shoe option of ₹4,000 crore. The company received bids worth ₹33,670 crore, nearly 34 times of the base issue.

Zero-coupon bonds are issued at a deep discount and redeemed at face value and offer investors tax advantages as the redemption is classified as long-term capital gains and taxed at a lower rate of 12.5 per cent per annum due to CBDT notification.

Deep-discount bonds are typically issued at a discount of over 20 per cent to their face value and do not pay regular interest. Similar to zero-coupon bonds, this structure eliminates reinvestment risk for investors.

Separately, Indian Railway Finance Corporation (IRFC) is seeking bids from investors in the domestic capital market to raise ₹3,000 crore through bonds maturing in 15 years. The issuance has a base size of ₹500 crore and a green-shoe option of ₹2,500 crore.

▶ FROM PAGE 1

EU collects \$1.1 bn import duty from tariffs in 5 yrs

Over the last month, the commerce department, which is in the process of finalising the goods, has been holding inter-ministerial consultations on items that will be subjected to higher tariffs.

Provisional safeguard measures on imports of certain steel products were first imposed in 2018 on 26 varieties of steel. The safeguard measures took the form of tariff rate quota (TRQ) and any steel beyond the quota was subject to a 25 per cent additional tariff.

While the measure was supposed to be in place till June 2021, it was later extended till June 30, 2024. In June, the EU extended safeguard duties on steel imports till June 2026. According to the trade bloc, the regulation was implemented to "prevent economic damage" for the EU steel producers, amid high global steel overcapacity and a surge in exports from China via Asian nations into Europe. Over five years, around \$4.4 billion worth of India's exports have been impacted and the EU has collected \$1.1 billion import duty due to the imposition of tariffs. According to India's submission to the WTO in September, the country plans to impose an equivalent amount of duty on goods originating from the EU.

Last month, commerce and industry minister Piyush Goyal told this paper that India and the EU had conducted extensive discussions and negotiations on this issue. "We gave them every possible opportunity to put an end to these tariffs on steel and aluminium. A few months back, when we were in the elections, they once again extended it for two or three years. Then we thought that now we have to retaliate. We haven't finalised the process," Goyal had said.

Private players may also benefit from integrated portal

Currently, only state and central government ministries and departments can access the digital portal for detailed planning and timely implementation of infrastructure connectivity projects.

Only state and central government ministries and departments can access the digital portal for detailed planning

"Even private players who will have access to the masterplan portal will find this integration beneficial as they also complain

about the lack of skilled workers in a location. Using the e-Shram portal, they will be able to plan their workforce requirements. They could easily map the geographical spread and availability of workers then. Additionally, it will also help workers know about the job opportunities available for their skillset," the official added.

BS SUDOKU #4424

	9			7	8		
			8			4	2
	2		6			9	3
6			5	3	9		
9				8	1		7
3							5
	4	7			2		9
			1	4	5		7
1		5			8	4	

SOLUTION TO #4423

8	7	5	6	2	9	3	1	4
3	1	2	8	4	5	7	9	6
4	9	6	3	7	1	8	2	5
6	3	7	1	8	4	2	5	9
1	4	8	5	9	2	6	7	3
5	2	9	7	3	6	1	4	8
2	8	3	4	5	7	9	6	1
9	5	1	2	6	3	4	8	7
7	6	4	9	1	8	5	3	2

Very easy: ★
Solution tomorrow

HOW TO PLAY
Fill in the grid so that every row, every column and every 3x3 box contains the digits 1 to 9

CSL FINANCE LIMITED
Regd. Office: 410-412, 18/12, 4th Floor, W.E.A. Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005
Corp. Office: 716-717, 7th floor, Tower B, World Trade Tower, Noida, Sector-16, U.P.-201301
(CIN: L74899DL1992PLC051462; Tel: 0120-4290654; Email: info@cslfinance.in; Web: www.cslfinance.in)

Revenue
6%
Q-o-Q

PBT
0.27%
Q-o-Q

AUM
22%
Q-o-Q

Revenue
41%
Y-o-Y

PBT
22%
Y-o-Y

AUM
22%
Y-o-Y

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

Particulars	Amount (Rs. in Lakhs)					
	Quarter Ended			Half Year Ended		
	30-Sep-24 Un-audited	30-Jun-24 Un-audited	30-Sep-23 Un-audited	30-Sep-24 Un-audited	30-Sep-23 Un-audited	31-Mar-24 Audited
Total Income from operations	5,430.97	5,135.66	3,852.79	10,566.64	7,401.49	16,658.49
Net Profit/(loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,471.96	2,465.16	2,025.15	4,937.13	3,843.96	8,559.60
Net Profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,471.96	2,465.16	2,025.15	4,937.13	3,843.96	8,559.60
Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,785.41	1,848.83	1,482.03	3,634.24	2,806.84	6,336.21
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	1,785.41	1,848.83	1,482.03	3,634.24	2,806.84	6,336.21
Paid up Equity Share Capital	2,245.55	2,245.55	2,242.02	2,245.55	2,242.02	2,243.62
Debt Equity Ratio	1.13	1.15	0.96	1.13	0.96	1.06
Earnings per share (Face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-						
Basic	7.84	8.12	7.04	15.95	13.33	28.60
Diluted	7.75	8.03	7.01	15.78	13.28	28.27

Notes:

- These financial results for the quarter and half year ended September 30, 2024 have been reviewed by the Audit Committee of the Board and subsequently approved by the Board of Directors in their respective meetings held on November 09, 2024.
- These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, the other relevant provision of the Companies Act, 2013 and the Master Directions / Guidelines issued by Reserve Bank of India as applicable and relevant to Non-Banking Financial Companies, as amended from time to time.
- The Company is primarily engaged in the business of providing loans to Small and Medium Enterprises and other enterprises and has no overseas operations / units and as such, no segment reporting is required under Indian Accounting Standard for Operating Segments (Ind AS 108).
- The company do not have any Holding/Subsidiary/Joint Venture/Associate concern, hence no reporting is required in this context.
- Impairment on Financial Instruments include write off of the entire Suvidha portfolio of INR 225.05 lacs. However, the efforts for its recovery are continued by the Company.
- Figures for the previous period/s have been re-grouped, wherever necessary, to make them comparable with the current period.

On behalf of the Board
For CSL Finance Limited
Sd/-
Rohit Gupta
(Managing Director)
DIN: 00045077

Place : Noida
Date : 09.11.2024

where vision takes shape...

K I C METALIKS LIMITED
CIN: L01409WB1986PLC041169
Regd. Office : Om Tower, 32 J.L. Nehru Road, 3rd Floor,
Room No. 304, Kolkata - 700071; E-mail id : info@kicmetaliks.com
Tel. : 033-35173005, Website : www.kicmetaliks.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2024

Sl. No.	Particulars	(Rs. in lakhs)					
		Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total revenue from operations	23,418.05	17,896.64	19,882.34	41,314.69	42,834.94	85,418.42
2.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and/or Extraordinary items)	12.37	80.30	114.89	92.67	307.44	150.60
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	12.37	80.30	114.89	92.67	307.44	150.60
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	15.79	84.87	103.06	100.66	265.52	228.48
5.	Total comprehensive income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	16.12	85.44	102.08	101.56	263.24	235.16
6.	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- per share)	709.92	709.92	709.92	709.92	709.92	709.92
7.	Other Equity	-	-	-	-	-	17,305.58
8.	Earnings per share (Face Value of Rs. 2/- per share) I. Basic and Diluted	0.04	0.24	0.29	0.28	0.75	0.64

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2024 is available on the Stock Exchange website, i.e. www.bseindia.com and on the Company's website at www.kicmetaliks.com.
- The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 09th November, 2024. The same has also been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.
- The Company has only one reportable business segment i.e "Iron & Steel and allied products." Accordingly, separate segment information as per Ind AS 108 are not applicable.
- Figures of the previous quarter/year have been re-arranged, re-grouped and recasted to conform to current period classification, wherever necessary.

By Order of the Board
For K I C Metaliks Limited
Sd/-
Radhey Shyam Jalan
Chairman and Managing Director
DIN : 00578800

Date : 09th November, 2024
Place: Kolkata

बढ़ी मांग से इंडियन होटल्स के मुनाफे को बल

प्रबंधन का मानना है कि कंपनी के दमदार प्रदर्शन को मांग-आपूर्ति के अंतर और जनसांख्यिकी में बदलाव से मदद मिली। कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजों को बाजार ने भी सराहा और कंपनी का शेयर शुक्रवार को 7 प्रतिशत चढ़ गया

राम प्रसाद साहू
मुंबई, 10 नवंबर

वित्त वर्ष 2025 की सुस्त अप्रैल-जून तिमाही के बाद सितंबर तिमाही में भारत की सबसे बड़ी सूचीबद्ध होटल दिग्गज इंडियन होटल्स कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। औसत कमरा दर (एआरआर) में दो अंक की वृद्धि और ऊंची ऑक्यूपेंसी (ग्राहकों के रुकने की दर) की मदद से ताज होटल्स चेन की इस मालिक ने राजस्व में 16 प्रतिशत और परिचालन लाभ में 30 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया। कुल राजस्व 27 प्रतिशत तक बढ़ा, जिसमें एयरलाइन केटरिंग यूनिट ताजसैट्स एयर केटरिंग के आंकड़े भी शामिल हैं।

कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजों को बाजार ने सराहा और उसका शेयर शुक्रवार को 7 प्रतिशत चढ़ गया। इससे उसका बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।

इंडियन होटल्स ने 78 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी दर दर्ज की जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 210 आधार अंक ज्यादा है जबकि कमरा दर 10.4 प्रतिशत तक बढ़कर 14,321 रुपये पर पहुंच गई। इससे उपलब्ध प्रति कमरा राजस्व (रेवपार) में 13.4 प्रतिशत का इजाफा रेवपार को मिला और यह 11,163 रुपये रहा। कई होटल 80 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के नजदीक पहुंच गए जिनमें से कई की वृद्धि को कमरा दरों में इजाफे से मदद मिली।

प्रबंधन का कहना है कि होटल व्यवसाय



लाभप्रदता की राह पर टिका

एकल मानक						बदलाव %	
	व्यू-2 वि.व. 24	व्यू-3 वि.व. 24	व्यू-4 वि.व. 24	व्यू-1 वि.व. 25	व्यू-2 वि.व. 25	सालाना बीपीएस	तिमाही बीपीएस
ऑक्यूपेंसी (%)	5.9	76.8	79.1	76	78	210	200
एआरआर (रुपये)	12,972	18,111	17,546	12,906	14,321	10	11
रेवपार (रुपये)	9,840	13,918	13,885	9,810	11,163	13	14
कुल राजस्व (करोड़ रु.)	949	1,322	1,383	932	1,036	9	11

एआरआर : कमरे की औसत दर

रेवपार : उपलब्ध प्रति कमरे का राजस्व

बीपीएस : आधार अंक

स्रोत : मोतीलाल ओसवाल रिसर्च

को आपूर्ति-मांग में असंतुलन और अनुकूल जनसांख्यिकी से बल मिला। दूसरी तिमाही में मांग 7 प्रतिशत तक बढ़ी जबकि आपूर्ति में महज 2 प्रतिशत इजाफा हुआ। कंपनी के सभी ब्रांडों ने सालाना आधार पर प्रति उपलब्ध कमरा राजस्व में दोहरे अंक में वृद्धि दर्ज की। यह रुझान बरकरार रहने की उम्मीद है।

मोतीलाल ओसवाल ने विश्लेषक सुमंत कुमार को वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही

में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। इसकी वजह कंपनी को शायदियों के व्यस्त सीजन (पिछले साल की तुलना में 30 प्रतिशत) में महज 2 प्रतिशत इजाफा हुआ। कंपनी के सभी ब्रांडों ने सालाना आधार पर प्रति उपलब्ध कमरा राजस्व में दोहरे अंक में वृद्धि दर्ज की। यह रुझान बरकरार रहने की उम्मीद है।

इन रुझानों को ध्यान में रखते हुए इंडियन होटल्स ने अपने 25,230 कमरों के पोर्टफोलियो को बढ़ाने की योजना बनाई है।

इनमें 14,145 कमरे उसके स्वामित्व वाले हैं जबकि बाकी का वह प्रबंध करती है। कंपनी का लक्ष्य अगले चार से पांच साल में 17,354 कमरे जोड़ने का है। इनमें 3,532 स्वामित्व वाले होंगे जबकि 13,822 का वह प्रबंध करेगी।

वित्त वर्ष 2025 के बाद कंपनी को बढ़ती खर्च योग्य आय, नए पर्यटन स्थलों और बदलते यात्री व्यवहार से मजबूत वृद्धि की उम्मीद है। इन रुझानों को ध्यान में रखते हुए

इलारा कैपिटल ने इस शेयर पर अपनी रेटिंग 'बेचें' से बदलकर 'एकत्रित करें' कर दी है। इलारा के विश्लेषक प्रशांत बियाणी का कहना है, 'इंडियन होटल्स हमारे पिछले अनुमान की तुलना में मजबूत मांग की ज्यादा बड़ी लाभार्थी नजर आ रही है।' मजबूत कारोबारी वृद्धि और ताजसैट्स के समेकन को ध्यान में रखते हुए इलारा ने वित्त वर्ष 2025 और 2025-26 के लिए राजस्व और परिचालन मुनाफा अनुमान 20-21 प्रतिशत तथा 23-24 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं।

मोतीलाल ओसवाल ने मजबूत मांग, प्रभावी परिसंपत्ति प्रबंधन और कॉरपोरेट दर वृद्धि की मदद से एआरआर में तेजी को ध्यान में रखते हुए अपनी 'खरीदे' रेटिंग बरकरार रखी है। अनुकूल मांग-आपूर्ति परिदृश्य के कारण ऊंचे ऑक्यूपेंसी स्तर और 2027-28 तक स्वामित्व/पट्टे पर लिए गए और प्रबंधित होटलों में कमरों की मजबूत वृद्धि से से भी मदद मिलेगी।

वृद्धि के अन्य वाहकों में प्रबंधन अनुबंधों से ऊंची आय और नए तथा पुनर्निर्मित ब्रांडों के विस्तार के माध्यम से मूल्य वृद्धि शामिल हैं। राजस्व वृद्धि के साथ साथ कंपनी को मार्जिन में सुधार की भी उम्मीद है। तिमाही में समेकित मार्जिन 26.9 आधार अंक तक सुधरकर 27.5 प्रतिशत हो गया क्योंकि इसे बेहतर लागत नियंत्रण और परिचालन दक्षता से मदद मिली। फिलिपकैपिटल के विश्लेषकों के अनुसार भविष्य में परिचालन मुनाफा मार्जिन को अंतरराष्ट्रीय होटल पोर्टफोलियो में नुकसान घटने से फायदा होगा।

विदेशी निवेश को गिरावट से ठेस

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 10 नवंबर

अक्टूबर से बड़ी बिकवाली के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का निवेश प्रवाह 2024 में इस साल जनवरी से अब तक (वाईटीडी) ऋणात्मक हो गया है। यानी इस साल जितना निवेश किया, उससे ज्यादा निकाल लिया। सितंबर के शुरू में यह निवेश 22,000 करोड़ रुपये (1 जनवरी से) की ऊंचाई पर पहुंच गया था। बिकवाली की इस लहर ने मुख्य सूचकांकों को भी नीचे गिरा दिया है और निफ्टी का अभी तक का इस साल का रिटर्न सितंबर के 21 प्रतिशत के ऊंचे स्तर से घटकर 11 प्रतिशत रह गया है। एफपीआई के रुझान में बदलाव के तीन मुख्य कारण हैं:— चीन के आक्रामक प्रोत्साहन उपायों की वजह से वहां के बाजारों सुधार, फेडरल रिजर्व के दरों को लेकर नरम रुख अपनाने के बावजूद अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में मजबूती और भारतीय कंपनियों के जुलाई-सितंबर तिमाही के कमजोर नतीजे।

मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापक और मुख्य निवेश अधिकारी सौरभ मुखर्जी ने कहा, 'तीन मजबूत वर्षों के बाद अर्थव्यवस्था चक्र्रीय मंदी की ओर बढ़ रही है। इसका संकेत पिछली दो तिमाहियों की कॉरपोरेट आय से मिलता है। आय में इस मंदी के बावजूद बाजार अपने ऊंचे मूल्यांकन के करीब बने हुए हैं। एफपीआई के लिए काफी विकल्प उपलब्ध हैं। इसलिए कई बाहर निकल गए हैं और यह रुझान जारी रहने की संभावना है।' हाल के महीनों में चीन के प्रोत्साहन उपायों ने उसके शेयर बाजारों को ऊंचा बढ़ाया है जो भारत के मूल्यांकन के मुकाबले आधे से भी कम पर कारोबार कर रहे थे। परिणामस्वरूप कुछ निवेशकों ने अपना पैसा भारत से निकालकर चीन में लगा दिया है।

शुक्रवार को चीन की सर्वोच्च विधायी संस्था ने 1.4 लाख करोड़ डॉलर के अतिरिक्त प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की लेकिन वह उम्मीदों से कम था। विशेषज्ञों का मानना है कि हालांकि भारतीय शेयरों के लिए चीन का खतरा कम हो गया है। लेकिन कमजोर आय के साथ-साथ बढ़ते अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड अब बड़ी चुनौती बन गए हैं।

पिछले सप्ताह अपनी बैठक में फेड ने नीतिगत दर 25 आधार अंक तक घटा दी। इससे पहले सितंबर में दरों में 50 आधार अंक की कटौती की गई थी। फिर भी, 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी का यील्ड सितंबर के निचले स्तर 3.6 प्रतिशत से



एफपीआई निवेश

■ निवेश पहुंच गया था 22 हजार करोड़ रुपये, अब गिरावट की ओर

■ निफ्टी का इस साल का रिटर्न सितंबर के 21 प्रतिशत के ऊंचे स्तर से घटकर 11 प्रतिशत रह गया

बढ़कर 4.49 प्रतिशत तक पहुंच गया है। अमेरिकी और भारत के बीच दर में अंतर घटने से एफपीआई अक्टूबर में भारतीय डेट के शुद्ध बिकवाल बन गए।

अमेरिकी डॉलर मजबूत होने और बढ़ते यील्ड से कई उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव पड़ा है जिनमें रुपया भी शामिल है। रुपया पिछले सप्ताह डॉलर की तुलना में 84.4 के निचले स्तर पर आ गया। रुपये के कमजोर पड़ने से अल्पावधि में एफपीआई निवेश की आवक पर और ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि केयरएज रेटिंग्स का मानना है कि जैसे-जैसे अमेरिकी नीति के संबंध में स्थिति स्पष्ट होगी, मध्यवर्धि के दौरान एफपीआई के निवेश में वापसी हो सकती है जिससे रुपये पर दबाव कम हो सकता है। फिर भी सुस्त आय वृद्धि से जुड़ी चिंताएं निवेशक मनोबल पर दबाव बनाए रख सकती हैं।

जेएम फाइनेंशियल ने तिमाही नतीजे पेश कर चुकी 157 कंपनियों के विश्लेषण किया। इससे पता चलता है कि 44 प्रतिशत (69 कंपनियों) अनुमान के मुकाबले प्रदर्शन नहीं कर पाई, जबकि 41 प्रतिशत (65 प्रतिशत) अनुमान से बेहतर करने में सफल रही। शेष 15 प्रतिशत कंपनियों ने अनुमान के अनुरूप प्रदर्शन दर्ज किया। ब्रोकरेज के अनुसार एफएमसीजी, खुदरा और मोटर वाहन क्षेत्रों की शहरी मांग में मंदी, रसायन और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में नरमी तथा बैंकों और कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के असुरक्षित ऋण खातों में फंसे कर्ज की समस्या ने वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित किया है।

एसआईपी निवेशकों की तेजी से बढ़ रही संख्या

एसआईपी के लिए औसत घट रहा है, भले ही नए खते खोलने की रफ्तार मजबूत बनी हुई है। म्युचुअल फंडों की पहुंच बढ़ने की वजह से एसआईपी का औसत आकार हाल के वर्षों में कमजोर पड़ गया था। हालांकि महामारी के बाद की अवधि में बड़ी गिरावट के बाद औसत आकार में फिर से तेजी आने लगी है, क्योंकि उद्योग ने पिछले चार साल में अपने निवेशक आकार को करीब दोगुना कर लिया है।

भारत में म्युचुअल फंडों के

संगठन (एफएम) के आंकड़े से पता चलता है कि 9.9 करोड़ एसआईपी खातों में सितंबर 2024 में प्रत्येक में औसत तौर पर 2,483 रुपये का निवेश आया। तुलनात्मक तौर पर मार्च में यह राशि 2,294 रुपये और सितंबर 2023 में 2,250 रुपये थी। प्रति एसआईपी अकाउंट औसत निवेश महामारी से पहले करीब 3,000 रुपये था। दिसंबर 2019 में, निवेशकों ने अपने एसआईपीओ खातों के जरिये औसतन 2,558 रुपये का योगदान दिया।

बीएस

हॉन्डा कार्स इंडिया लिमिटेड


पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर ए-1, सेक्टर 40/41, सुरजपुर कासना रोड, ग्रेटर नोएडा इंडियन डेवलपमेंट एरिया, गीतमबुद्ध नगर (यू.पी.) - 201306, CIN: U15114UP1995PLC099377, ई-मेल: corporate@hondacarindia.com, टेलीफोन: 0120-2341306, वेबसाइट: www.hondacarindia.com

सूचना

हॉन्डा कार्स इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी श्री योशीहिको मात्सुमोतो (डीआईएन: 10782875), अनिवासी को 1 अक्टूबर, 2024 से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए कम्पनी का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने के उद्देश्य से कथित अधिनियम की धारा 196 के साथ पठित अनुसूची V और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के अनुमोदन के लिए आवेदन करने की इच्छुक है।

स्थान : ग्रेटर नोएडा
तिथि : 07.11.2024

कृते हॉन्डा कार्स इंडिया लिमिटेड
हस्ता./—
अंजलि यादव
कम्पनी सचिव



EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

Particulars	Amount (Rs. in Lakhs)					
	30-Sep-24 Un-audited	30-Jun-24 Un-audited	30-Sep-23 Un-audited	30-Sep-24 Un-audited	30-Sep-23 Un-audited	31-Mar-24 Audited
Total Income from operations	5,430.97	5,135.66	3,852.79	10,566.64	7,401.49	16,658.49
Net Profit/(loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,471.96	2,465.16	2,025.15	4,937.13	3,843.96	8,559.60
Net Profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,471.96	2,465.16	2,025.15	4,937.13	3,843.96	8,559.60
Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,785.41	1,848.83	1,482.03	3,634.24	2,806.84	6,336.21
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	1,785.41	1,848.83	1,482.03	3,634.24	2,806.84	6,336.21
Paid up Equity Share Capital	2,245.55	2,245.55	2,242.02	2,245.55	2,242.02	2,243.62
Debt Equity Ratio	1.13	1.15	0.96	1.13	0.96	1.06
Earnings per share (Face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-						
Basic	7.84	8.12	7.04	15.95	13.33	28.60
Diluted	7.75	8.03	7.01	15.78	13.28	28.27

Notes:

- These financial results for the quarter and half year ended September 30, 2024 have been reviewed by the Audit Committee of the Board and subsequently approved by the Board of Directors in their respective meetings held on November 09, 2024.
- These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, the other relevant provision of the Companies Act, 2013 and the Master Directions / Guidelines issued by Reserve Bank of India as applicable and relevant to Non-Banking Financial Companies, as amended from time to time.
- The Company is primarily engaged in the business of providing loans to Small and Medium Enterprises and other enterprises and has no overseas operations / units and as such, no segment reporting is required under Indian Accounting Standard for Operating Segments (Ind AS 108).
- The company do not have any Holding/Subsidiary/Joint Venture/Associate concern, hence no reporting is required in this context.
- Impairment on Financial Instruments include write off of the entire Suidhda portfolio of INR 225.05 lacs. However, the efforts for its recovery are continued by the Company.
- Figures for the previous period/s have been re-grouped, wherever necessary, to make them comparable with the current period.

On behalf of the Board
For CSL Finance Limited
Sd/
Rohit Gupta
(Managing Director)
DIN: 00045077

Place : Noida
Date: 09.11.2024



बाजार
हलचल

जीक्यूजी पार्टनर्स देश में छठी सबसे बड़ी एफपीआई

जीक्यूजी पार्टनर्स भारत में छठी सबसे बड़ी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) बन गई है। प्राइम डेटाबेस के मुताबिक अमेरिका की बुटिक इन्वेस्टमेंट फर्म के पास 13 कंपनियों की हिस्सेदारी है (कम से कम 1 फीसदी) और उसके निवेश की वैल्यू सितंबर के आखिर में 46,050 करोड़ रुपये थी। एफपीआई रैंकिंग में अग्रणी हैं सॉफिन वेल्थ फंड्स ऑफ सिंगापुर (जीआईसी) और नॉर्वे (नॉर्जेज)। जीआईसी के पास 685 कंपनियों को 2.7 लाख करोड़ रुपये की हिस्सेदारी है जबकि नॉर्जेज ने 95 कंपनियों में निवेश कर रखा है जिसका मूल्य 1.42 लाख करोड़ रुपये है। जीक्यूजी पार्टनर्स की बढ़ती हुई मुख्य वजह अदानी समूह के शेयरों में उसका रणनीतिक दौब है जिसने उसके इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड को खास तौर से उन अमेरिकी निवेशकों के बीच लोकप्रिय बना दिया है जो भारतीय बाजार में निवेश करना चाहते हैं।

रिकॉर्ड ऊंचाई से काफी नीचे निपटी

बेंचमार्क नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 पिछले छह हफ्तों में से पांच में लाल निशान के साथ बंद हुआ और इस तरह से अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से 8 फीसदी नीचे आया है। ऐतिहासिक तौर पर ऐसी तेज गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देखा जाता है। लेकिन विशेषज्ञ ऐसे निचले स्तर पर खरीदारी के खिलाफ आगाह कर रहे हैं क्योंकि रुझान कमजोर बना हुआ है। एचडीएफसी सिक्वोरिटीज के खुदरा शोध प्रमुख दीपक जसानी ने कहा कि निफ्टी के लिए अल्पावधि का रुझान अस्थिर बना हुआ है और अल्पावधि के लिहाज से और कमजोर उसके एक दायरे में ही रहने का अनुमान है। निचले स्तर पर आगला समर्थन स्तर करीब 23,800 होगा जबकि तात्कालिक प्रतिरोध का स्तर 24,537।

आईपीओ वाली फर्म रणनीति पर

कर रहीं फिर से विचार

द्वितीयक बाजार में बिकवाली और आईपीओ की निराशाजनक सूचीबद्धता ने आईपीओ की योजना बना रही कंपनियों को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने खुलासा किया कि इश्यू करने वाले और निवेश बैंकर अपने आईपीओ को संशोधित कर रहे हैं ताकि उसे बाजार के बदलते समीकरणों के अनुसार ढाला जा सके। सूचीबद्धता पर संभावनाएं बढ़ाने के लिए द्वितीयक हिस्सेदारी में कमी और मूल्यांकन घटना शामिल है।

संकलन : समी मोडक

SKIPPER SKIPPER LIMITED

Registered Office : 3A, Loudon Street, 1st Floor, Kolkata - 700017; Telephone No.: (033) 2289 5731/ 5732; Fax No.: (033) 2289 5733; Contact Person : Mrs. Anu Singh (Company Secretary & Compliance Officer); E-mail : anu.singh@skipperlimited.com; Website : www.skipperlimited.com;

NOTICE FOR PAYMENT OF FIRST AND FINAL CALL TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD AS ON THE RECORD DATE I.e., MONDAY, NOVEMBER 04, 2024

- Pursuant to the Issue, the Company has issued and allotted partly paid-up Equity Shares, on a rights basis, to its eligible equity shareholders at an Issue Price of ₹ 194/- each (including a premium of ₹ 193/- per share), in the ratio of 1:10, i.e. 1 (One) Rights Equity Share for every 10 (Ten) Fully Paid-Up Equity Shares held by the eligible Equity Shareholders (as defined in the Letter of Offer) as on the record date i.e. Friday, January 12, 2024.
- In accordance with the terms of the Issue as mentioned in the Letter of Offer, the Company had received ₹ 48.50 (comprising ₹ 0.25 towards face value and ₹ 48.25 towards premium) per partly paid-up Equity Share as application money and the partly paid-up Equity Shares were allotted on February 19, 2024. The balance amount of ₹ 145.50 per partly paid-up Equity Share (comprising ₹ 0.75 towards face value and ₹ 144.75 towards premium) would be payable up to additional call(s), with terms and conditions such as the number of calls and the timing and quantum of each call as may be decided by the Board of Directors ("Board") of the Company, from time to time.
- The Board at its meeting held on October 28, 2024 has decided to make the First and Final Call Money of ₹ 144.50 per partly paid-up equity share (comprising ₹ 0.75 towards face value and ₹ 144.75 towards premium) (the "First and Final Call Money") in respect of outstanding partly paid-up Equity Shares, payable from Wednesday, November 13, 2024 to Wednesday, November 27, 2024.
- The Company has fixed Monday, November 04, 2024 as the record date ("First and Final Call Record Date") for the purpose of determining the partly paid-up equity shareholders ("Eligible Shareholders") to whom the notice for the First and Final Call Money (the "First and Final Call Notice"), is being sent.
- In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), read with the relevant Rules made thereunder, First and Final Call Notice along with the detailed instructions, ASBA form and Payment Slip has been sent in electronic mode to all the Eligible Shareholders whose e-mail address are registered with the Company or the Depository Participant(s) as on the Record Date i.e. Monday, November 04, 2024 and physical copy of the same has also been sent via permitted modes of dispatch at the registered address of other Eligible Shareholders on November 09, 2024.
- There will be no trading on ₹ 48.50 partly paid-up equity shares of the Company bearing ISIN: IN9439E01012 on the BSE Limited & The National Stock Exchange of India Limited w.e.f. Monday, November 04, 2024, on account of the First and Final Call Money.
- The First and Final Call Money can be paid through following modes :
 - Online ASBA :** By visiting the website of the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") offering the online ASBA facility, to block the monies payable towards the First and Final Call in their respective bank accounts maintained with such SCSBs.
 - Physical ASBA :** By submitting the duly filled up ASBA Form of the First and Final Call Notice at the designated branch of the SCSBs, to block the monies payable towards the First and Final Call in their respective bank accounts maintained with such SCSBs. Please Visit: <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpIyes&intmid=35> to refer to the list of SCSBs.
 - 3-in-1 account :** In accordance with the Securities and Exchange Board of India circular no. SEBI/HO/CFD/DIL/1/CIR/238/2020 dated December 08, 2020, Eligible Shareholders can also make the First and Final Call Money payment by using the facility of linked online trading-demat-bank demand [3-in-1 type accounts], provided by some of the brokers.
 - Deposit of Cheque / Demand Draft with collection centre of ICI Bank Limited (made payable to) :**
 - Skipper Limited First and Final Call Money- Escrow collection - R* a/c.
 - Skipper Limited First and Final Call Money- Escrow collection - NR* a/c.
 - (R - [for residential shareholders] and *NR - [for non-residential shareholders])
- Eligible Shareholders may note the consequences on non-payment of First and Final Call Money:
 - Interest @ 10 % (Ten Percent Only) p.a. will be payable for delay in payment of First and Final Call beyond November 27, 2024, till the actual date of payment.
 - The Company shall be entitled to deduct from any future dividend payable to you, all sums of money outstanding on account of calls and interest; due thereon in relation to the partly paid-up equity shares of the Company; and
 - The partly paid-up equity shares of the Company currently held by you, including the amount already paid thereon may be liable to be forfeited on failure to pay the First and Final Call, in accordance with the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer.

Other Information :

- In case of non-receipt of First and Final Call Notice, Eligible Shareholders can request by e-mail or letter, for the First and Final Call Notice to the Registrar or may also be downloaded from Company's website: www.skipperlimited.com or the Registrar's website: www.mcl.in
- For any queries related to First and Final Call Money, Eligible Shareholders kindly refer "FAQ on payment of First and Final Call Money" available on the website of the Company at <https://www.skipperlimited.com/Media/Skipper-FAQs-on-First-and-Final-Call-Money.pdf> or call the Company or the RTA as per the details mentioned in the Notice for First and Final Call Money given to all the Eligible Shareholders.
- Eligible Shareholders residing at locations where the ASBA facility or Bank's collection centres are not available, may send their First and Final Call Money along with the complete Payment Slip by Registered post / speed post at the office of the Registrar i.e. Maheshwari Datamatics Private Limited stating the requisite details along with the cheque payable at par / Demand Draft payable at Kolkata, such that the same is received on or before the last date of payment by using the facility of linked online trading-demat-bank demand [3-in-1 type accounts], provided by some of the brokers, on Wednesday, November 27, 2024.
- This Notice is for the information of Eligible Shareholders in relation to the First and Final Call and not for publication, distribution, directly or indirectly outside India. This Notice does not constitute an offer or invitation or inducement to purchase or sale or to subscribe for, any new securities of the Company.

For Skipper Limited
Sd/-
Anu Singh
Date : 09.11.2024
Place : Kolkata
Company Secretary & Compliance Officer